



# भारत का राजपत्र

# The Gazette of India

असाधारण

## EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

## PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

## PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 317]

नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 25, 2017/वैशाख 5, 1939

No. 317]

NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 25, 2017/VAISAKHA 5, 1939

संचार मंत्रालय

(दूरसंचार विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 अप्रैल, 2017

**सा.का.नि. 406(अ).**—केन्द्रीय सरकार, भारतीय तार अधिनियम, 1885 (1885 का 13) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय तार नियम, 1951 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय तार (तृतीय संशोधन) नियम, 2017 है।  
(2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त समझे जाएंगे।
2. भारतीय तार नियम, 1951 में—  
(i) नियम 525 के उपनियम (2), खंड (iii) में, मद संख्या (घ) के पश्चात् निम्नलिखित मद को शामिल किया जाएगा, अर्थात्—  
“(ङ.) अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूहों और लक्षद्वीप द्वीप समूहों के लिए व्यापक दूरसंचार विकास योजना के अनुसार लक्षद्वीप समूह के केंद्र शासित प्रदेश में कवरेज बढ़ाने तथा सेवा की गुणवत्ता में सुधार करने हेतु 2जी मोबाइल कनेक्टिविटी में वृद्धि करने के लिए, भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) द्वारा वहन किए गए व्यय को सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि (यूएसओएफ) से वित्त पोषित किया जाएगा।”  
(ii) उक्त नियमों के नियम 526 में शब्दों, कोष्ठकों और अक्षरों “खंड (iii) की मद (खक), मद (ग) और मद (घ)” के स्थान पर “खंड (iii) की मद (खक), मद (ग), मद (घ) और मद (ङ)” शब्दों, कोष्ठकों और अक्षर रखा जाएगा।

[फा. सं. 30-176-3/2015-बी बी-यूएसएफ(खंड.II)]

अमित यादव, संयुक्त सचिव (प्रशासन)

**टिप्पणी:** मुख्य नियम डाक एवं तार पुस्तिका खंड 1, विधायी अधिनियमन, भाग-2, संस्करण में प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् निम्नलिखित द्वारा संशोधित किए गए थे:-

1.	सा.का.नि. 190, दिनांक 18.फरवरी.1984	36	सा.का.नि. 622(अ), दिनांक 15.जून.1989
2.	सा.का.नि. 386, दिनांक 22.मई.1984	37	सा.का.नि. 865, दिनांक 29.सितम्बर.1989
3.	सा.का.नि. 387(अ), दिनांक 22.मई.1984	38	सा.का.नि. 413(अ), दिनांक 29.मार्च.1990
4.	सा.का.नि. 679, दिनांक 30.जून.1984	39	सा.का.नि. 574(अ), दिनांक 15.जून.1990
5.	सा.का.नि. 428, दिनांक 27.4.1985	40	सा.का.नि. 933(अ), दिनांक 03.दिसम्बर.1990
6.	सा.का.नि. 729, दिनांक 03.अगस्त.1985	41.	सा.का.नि. 985(अ), दिनांक 20.दिसम्बर.1990
7.	सा.का.नि. 982, दिनांक 19.अक्टूबर.1986	42.	सा.का.नि. 74(अ), दिनांक 18.जनवरी.1991
8.	सा.का.नि. 553(अ), दिनांक 27.मार्च.1986	43.	सा.का.नि. 237(अ), दिनांक 25.अप्रैल.1991
9.	सा.का.नि. 314, दिनांक 26.अप्रैल.1986	44.	सा.का.नि. 251(अ), दिनांक 02.मई.1991
10.	सा.का.नि. 566, दिनांक 26.जुलाई.1986	45.	सा.का.नि. 543(अ), दिनांक 21.मई.1992
11.	सा.का.नि. 953(अ), दिनांक 23.जुलाई.1986	46.	सा.का.नि. 560(अ), दिनांक 26.मई.1992
12.	सा.का.नि. 1121(अ), दिनांक 1.अक्टूबर.1986	47.	सा.का.नि. 587(अ), दिनांक 10.जून.1992
13.	सा.का.नि. 1167(अ), दिनांक 28.अक्टूबर.1986	48.	सा.का.नि. 730(अ), दिनांक 19.अगस्त.1992
14.	सा.का.नि. 1237(अ), दिनांक 28.नवम्बर.1986	49.	सा.का.नि. 830(अ), दिनांक 28.अक्टूबर.1992
15.	सा.का.नि. 49, दिनांक 17.जनवरी.1987	50.	सा.का.नि. 62(अ), दिनांक 11.फरवरी.1993
16.	सा.का.नि. 112(अ), दिनांक 25.फरवरी.1987	51.	सा.का.नि. 80, दिनांक 06.फरवरी.1993
17.	सा.का.नि. 377(अ), दिनांक 09.अप्रैल.1987	52.	सा.का.नि. 384(अ), दिनांक 27.अप्रैल.1993
18.	सा.का.नि. 674(अ), दिनांक 27.जुलाई.1987	53.	सा.का.नि. 387(अ), दिनांक 28.अप्रैल.1993
19.	सा.का.नि. 719(अ), दिनांक 18.अगस्त.1987	54.	सा.का.नि. 220(अ), दिनांक 26.मार्च.2004
20.	सा.का.नि. 837(अ), दिनांक 5.अक्टूबर.1987	55.	सा.का.नि. 713(अ), दिनांक 17.नवम्बर.2006
21.	सा.का.नि. 989(अ), दिनांक 17.दिसम्बर.1987	56.	सा.का.नि. 193(अ), दिनांक 01.मार्च.2007
22.	सा.का.नि. 337(अ), दिनांक 11.मार्च.1988	57.	सा.का.नि. 547(अ), दिनांक 18.जुलाई.2008
23.	सा.का.नि. 361(अ), दिनांक 201.मार्च.1988	58.	सा.का.नि. 49(अ), दिनांक 27.जनवरी.2010
24.	सा.का.नि. 626(अ), दिनांक 17.मई.1988	59.	सा.का.नि. 279(अ), दिनांक 31.मार्च.2010
25.	सा.का.नि. 660(अ), दिनांक 31.मई.1988	60.	सा.का.नि. 256(अ), दिनांक 27.मार्च.2012
26.	सा.का.नि. 693(अ), दिनांक 10.जून.1988	61.	सा.का.नि. 412(अ), दिनांक 29.मई.2012
27.	सा.का.नि. 734(अ), दिनांक 24.जून.1988	62.	सा.का.नि. 368(अ), दिनांक 07.जून.2013
28.	सा.का.नि. 606, दिनांक 14.जुलाई.1988	63.	सा.का.नि. 506(अ), दिनांक 24.जुलाई.2013
29.	सा.का.नि. 812(अ), दिनांक 26.जुलाई.1988	64.	सा.का.नि. 18, दिनांक 28.जनवरी.2014
30.	सा.का.नि. 888(अ), दिनांक 01.सितम्बर.1988	65.	सा.का.नि. 912(अ), दिनांक 23.दिसम्बर.2015
31.	सा.का.नि. 907(अ), दिनांक 07.सितम्बर.1988	66.	सा.का.नि. 653(अ), दिनांक 25.अगस्त.2015
32.	सा.का.नि. 916(अ), दिनांक 09.सितम्बर.1988	67.	सा.का.नि. 241, दिनांक 10.दिसम्बर.2015
33.	सा.का.नि. 1054, दिनांक 2.नवम्बर.1988	68.	सा.का.नि. 297(अ), दिनांक 28.मार्च.2017
34.	सा.का.नि. 179, दिनांक 18.मार्च.1989	69.	सा.का.नि. 314(अ), दिनांक 31.मार्च.2017
35.	सा.का.नि. 358(अ), दिनांक 15.मार्च.1989		

**MINISTRY OF COMMUNICATIONS**  
**(Department of Telecommunications)**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 20th April, 2017

**G.S.R. 406(E).**—In exercise of the powers conferred by section 7 of the Indian Telegraph Act, 1885 (13 of 1885), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Indian Telegraph Rules, 1951, namely:-

1. (1) These rules may be called the Indian Telegraph (Third Amendment) Rules, 2017.  
 (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Indian Telegraph Rules, 1951, -  
 (i) in rule 525, in sub-rule (2), in clause (iii), after item (d), the following item shall be inserted, namely:-  
     "(e) For augmentation of 2G mobile connectivity to improve the coverage and quality of Services in the Union Territory of Lakshadweep Islands as per the Comprehensive Telecom Development Plan for Andaman & Nicobar Islands and Lakshadweep Islands, Capital Expenditure incurred by Bharat Sanchar Nigam Limited (BSNL) shall be funded by the Universal Service Obligation Fund (USOF).";  
 (ii) in rule 526, for the words, brackets and letters "item (ba), item (c) and item (d) of clause (iii)", the words, brackets and letters "item (ba), item (c), item (d) and item (e) of clause (iii)" shall be substituted.

[F. No. 30-176-3/2015-BB-USF(Vol.II)]

AMIT YADAV, Jt. Secy. (Admin)

**Note :** The principal rules were published in the Post and Telegraph Manual Volume I, Legislative Enactments, Part II, Edition and subsequently amended vide notification numbers -

1. G.S.R. 190, dated the 18th February, 1984;
2. G.S.R. 386, dated the 22nd May, 1984;
3. G.S.R. 387(E), dated the 22nd May, 1984;
4. G.S.R. 679, dated the 30th June, 1984;
5. G.S.R. 428, dated the 27th April, 1985;
6. G.S.R. 729, dated the 3rd August, 1985;
7. G.S.R. 982, dated the 19th October, 1986;
8. G.S.R. 553(E), dated the 27th March, 1986;
9. G.S.R. 314, dated the 26th April, 1986;
10. G.S.R. 566, dated the 26th July, 1986;
11. G.S.R. 953(E), dated the 23rd July, 1986;
12. G.S.R. 1121(E), dated the 1st October, 1986;
13. G.S.R. 1167(E), dated the 28th October, 1986;
14. G.S.R. 1237(E), dated the 28th November, 1986;
15. G.S.R. 49, dated the 17th January, 1987;
16. G.S.R. 112(E), dated the 25th February, 1987;
17. G.S.R. 377(E), dated the 9th April, 1987;
18. G.S.R. 674(E), dated the 27th July, 1987;
19. G.S.R. 719(E), dated the 18th August, 1987;
20. G.S.R. 837(E), dated the 5th October, 1987;
21. G.S.R. 989(E), dated the 17th December, 1987;

22. G.S.R. 337(E), dated the 11th March, 1988;
23. G.S.R. 361(E), dated the 21st March, 1988;
24. G.S.R. 626(E), dated the 17th May, 1988;
25. G.S.R. 660(E), dated the 31st May, 1988;
26. G.S.R. 693(E), dated the 10th June, 1988;
27. G.S.R. 734(E), dated the 24th June, 1988;
28. G.S.R. 606, dated the 14th July, 1988;
29. G.S.R. 812(E), dated the 26th July, 1988;
30. G.S.R. 888(E), dated the 1st September, 1988;
31. G.S.R. 907(E), dated the 7th September, 1988;
32. G.S.R. 916(E), dated the 9th September, 1988;
33. G.S.R. 1054, dated the 2nd November, 1988;
34. G.S.R. 179, dated the 18th March, 1989;
35. G.S.R. 358(E), dated the 15th March, 1989;
36. G.S.R. 622(E), dated the 15th June, 1989;
37. G.S.R. 865, dated the 29th September, 1989;
38. G.S.R. 413(E), dated the 29th March, 1990;
39. G.S.R. 574(E), dated the 15th June, 1990;
40. G.S.R. 933(E), dated the 3rd December, 1990;
41. G.S.R. 985(E), dated the 20th December, 1990;
42. G.S.R. 74(E), dated the 18th January, 1991;
43. G.S.R. 237(E), dated the 25th April, 1991;
44. G.S.R. 251(E), dated the 2nd May, 1991;
45. G.S.R. 543(E), dated the 21st May, 1992;
46. G.S.R. 560(E), dated the 26th May, 1992;
47. G.S.R. 587(E), dated the 10th June, 1992;
48. G.S.R. 730(E), dated the 19th August, 1992;
49. G.S.R. 830(E), dated the 28th October, 1992;
50. G.S.R. 62(E), dated the 11th February, 1993;
51. G.S.R. 80, dated the 6th February, 1993;
52. G.S.R. 384(E), dated the 27th April, 1993;
53. G.S.R. 387(E), dated the 28th April, 1993;
54. G.S.R. 220(E), dated the 26th March, 2004;
55. G.S.R. 713(E), dated the 17th November, 2006;
56. G.S.R. 193(E), dated the 01st March, 2007;
57. G.S.R. 547(E), dated the 18th July, 2008;
58. G.S.R. 49(E), dated the 27 January, 2010;
59. G.S.R. 279(E), dated the 31st March, 2010;
60. G.S.R. 256(E), dated the 27th March, 2012;
61. G.S.R. 412(E), dated the 29th May, 2012;
62. G.S.R. 368(E) dated the 07th June, 2013;

63. G.S.R. 506(E) dated the 24th July, 2013;
64. G.S.R. 18 dated the 28th January, 2014;
65. G.S.R. 912(E) dated the 23rd December, 2014;
66. G.S.R. 653(E) dated the 25th August, 2015;
67. G.S.R. 241 dated the 10th December, 2015;
68. G.S.R. 297(E) dated the 28th March, 2017; and
69. G.S.R. 314(E) dated the 31st March, 2017.